

सेवा में,

संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / प्रभारी
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

एवं

प्राचार्य / प्राचार्या
राजकीय / अनुदानित / स्ववित्तपोषित
सम्बद्ध महाविद्यालय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

महोदय,

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में सम्पन्न सम सेमेस्टर (विज्ञान संकाय) परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन दिनांक 12.05.2026 से विश्वविद्यालय परिसर स्थित विज्ञान संकाय भवन में संचालित है। समस्त सम्बन्धित से अनुरोध है कि अपने संकाय/विभाग/संस्थान के निम्नलिखित विषयों के शिक्षकों को मूल्यांकन कार्य हेतु सूचित कर मूल्यांकन केन्द्र पर भेजने का कष्ट करें, जिससे ससमय मूल्यांकन कार्य पूर्ण किया जा सके। साथ ही संलग्न दिशा निर्देश का अवलोकन करते हुए सम्बन्धित शिक्षकगण को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मूल्यांकन तिथि	विषय	अपेक्षित परीक्षक
दिनांक 12.05.2026 से	जन्तु विज्ञान (परास्नातक पाठ्यक्रम)	आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षक
	वनस्पति विज्ञान (परास्नातक पाठ्यक्रम)	आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षक
	भौतिक विज्ञान (परास्नातक पाठ्यक्रम)	आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षक
	रसायन विज्ञान (परास्नातक पाठ्यक्रम)	आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षक
	गणित (परास्नातक पाठ्यक्रम)	आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षक
	जैव प्रौद्योगिकी (परास्नातक पाठ्यक्रम)	केवल आन्तरिक परीक्षक

(डॉ० आशुतोष कुमार वर्मा)
मूल्यांकन समन्वयक
सम सेमेस्टर, सत्र 2025-26

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
3. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
4. वित्त अधिकारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
5. प्रभारी/वार्डन, तथागत अतिथि गृह, यशोधरा महिला छात्रावास एवं आनन्द छात्रावास।
6. प्रभारी, कोडिंग सेल, कॉलेज लॉगिन एवं वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

(डॉ० आशुतोष कुमार वर्मा)
मूल्यांकन समन्वयक
सम सेमेस्टर, सत्र 2025-26

मूल्यांकन सत्र (2025-26) सम सेमेस्टर मूल्यांकन


उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु परीक्षकों के लिए दिशा-निर्देश एवं आग्रह

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय परिसर में समस्त परीक्षकगण का हार्दिक स्वागत करता है।

1. अन्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को परीक्षक बनने हेतु विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालयों से अनुमोदन के उपरान्त न्यूनतम तीन वर्ष का सतत अध्यापन अनुभव अनुमन्य होगा।
2. परीक्षकों के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्गत अद्यतन अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करनी होगी। स्ववित्तपोषित महाविद्यालय के शिक्षक के लिए अनुभव प्रमाण पत्र पर परीक्षक की पासपोर्ट साइज फोटो प्राचार्य द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए तथा अनुभव प्रमाण पत्र पर प्राचार्य का पूरा नाम व मोबाइल नम्बर अंकित होना चाहिए।
3. कुलसचिव द्वारा निर्गत अनुमोदन प्रपत्र की छायाप्रति सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। अनुमोदन प्रपत्र पर अंकित विवरण स्पष्ट रूप से पठनीय होनी चाहिए।
4. आवश्यक होने पर अनुमोदन प्रपत्र सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
5. न्यूनतम 6 माह का सतत माहवार (Monthly) अद्यतन सैलरी स्टेटमेंट प्रपत्र जमा करनी होगी। साथ ही अपडेटेड बैंक पासबुक दिखाना होगा। बैंक पासबुक में सैलरी क्रेडिट स्पष्ट उल्लिखित होनी चाहिए।
6. आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छायाप्रति जमा करनी होगी तथा मूलप्रति साथ में रखें।
7. किसी विषय/प्रश्न पत्र में उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या कम होने की स्थिति में मूल्यांकन हेतु सिद्धार्थ विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों को वरियता दी जायेगी।
8. प्रत्येक विषय/प्रश्न पत्र में उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या के अनुसार मूल्यांकन समन्वयक परीक्षकों की संख्या का निर्धारण कर आवश्यकतानुसार परीक्षकों को सूचना देंगे।
9. सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों को प्रत्येक विषय/प्रश्नपत्र के मूल्यांकन तिथि की सूचना महाविद्यालय के लागिन आई0डी0 पर कम से कम दो दिन पूर्व प्रेषित करने का प्रयास किया जाएगा। उक्त क्रम में मूल्यांकन की सूचना अपने महाविद्यालय के प्राचार्य से प्राप्त करें। प्राचार्यगण से भी आग्रह है कि सम्बन्धित विषय के प्राध्यापकों को मूल्यांकन हेतु सिद्धार्थ विश्वविद्यालय भेजे।

10. सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालय के परीक्षक मूल्यांकन समन्वयक द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा मूल्यांकन समन्वयक द्वारा पाठ्यक्रम समिति के संयोजक के माध्यम से बुलाने अथवा सूचना देने पर ही आएंगे। उपरोक्त के अनुसार बगैर बुलाए आने पर उन्हें मूल्यांकन हेतु उत्तरपुस्तिका देना संभव नहीं होगा। कोई भी परीक्षक अपने स्तर पर किसी दूसरे प्राध्यापक/परीक्षक को मूल्यांकन हेतु न बुलाएं।
11. प्रत्येक दिन मूल्यांकन गतिविधि प्रातः 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे के मध्य सम्पन्न होगा। 50 उत्तरपुस्तिका 1:00 से 1:30 बजे के मध्य तथा अन्तिम 50 उत्तरपुस्तिका 04:00 से 04:30 बजे के मध्य परीक्षक द्वारा जमा किया जायेगा।
12. समस्त परीक्षकों से विशेष आग्रह है कि उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन अत्यन्त ही एकाग्रता के साथ करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर मूल्यांकन समन्वयक के पास उपलब्ध पंजिका में उसका विवरण अंकित कर अपना हस्ताक्षर करें। एक से अधिक बार या गम्भीर त्रुटि होने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से मूल्यांकन कार्य से रोका जा सकता है तथा इसकी सूचना परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को भेज दी जायेगी।
13. मूल्यांकन करते समय प्रत्येक पृष्ठ पर परीक्षक द्वारा लाल पेन से ही चेक करने का निशान अंकित करना होगा। परीक्षक द्वारा प्रत्येक प्रश्न के अंत में अंक अंकित किया जाएगा। दिए गए अंक पूर्णतः पठनीय होना चाहिए।
14. यदि किसी उत्तरपुस्तिका में विद्यार्थी द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक प्रश्न का उत्तर दिया गया है तो उक्त उत्तर पर अंक के स्थान पर अतिरिक्त (Extra) अंकित करना होगा।
15. यदि परीक्षक को लगता है कि प्रश्न का उत्तर पूर्णतः गलत है इसे शून्य अंक प्राप्त होगा तो उसे काटने के स्थान पर 0 अंक दिया जाएगा और उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ के निर्धारित स्थान पर 0 अंक को अंकित करना होगा।
16. यदि किसी प्रश्न का उत्तर a, b, c, d, e में है तो प्रथम पृष्ठ पर उसी रूप में a, b, c, d, e के कालम अलग-अलग अंक भी अंकित करना होगा।
17. OMR Sheet को परीक्षक द्वारा बहुत सावधानी से भरा जाए। उत्तरपुस्तिका के प्रत्येक बार कोड (डमी नम्बर) को मिलाकर अंक स्पष्ट रूप में अंक अंकित करें। गोला करते समय भी बहुत सावधानी बरतें। दो से अधिक बार OMR Sheet भरने में गलती होने पर परीक्षक को मूल्यांकन कार्य से रोका जा सकता है। OMR पर गोला काले बॉल पेन से ही करेंगे। मार्कर पूर्णतः वर्जित है। व्हाइटनर का प्रयोग कहीं भी कदापि नहीं किया जाएगा।
18. प्रतिदिन एलाटमेंट पंजिका में अपना हस्ताक्षर करके ही उत्तरपुस्तिका का बंडल जांचे। प्राप्त उत्तरपुस्तिका का OMR से मिलान करने के उपरान्त ही पैकेट खोलें। मूल्यांकन के उपरान्त पैकेट जमा करते समय समय भी प्रतिदिन एलाटमेंट पंजिका पर निर्धारित स्थान पर भी हस्ताक्षर करेंगे।

19. उत्तर पुस्तिकाओं को जमा करते समय प्रत्येक उत्तरपुस्तिका का ओ0एम0आर0 से मिलान कर ही जमा किया जाएगा। मूल्यांकन के उपरान्त प्रत्येक पैकेट पर मूल्यांकित लिख कर अपना नाम, हस्ताक्षर, परीक्षक संख्या तथा दिनांक लिखना होगा।
20. परीक्षकों (पुरुष/महिला) के ठहरने के लिए तथागत अतिथि गृह में निर्धारित शुल्क भुगतान करने के आधार पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त पुरुष परीक्षकों के लिए आनन्द छात्रावास एवं महिला परीक्षक के लिए यशोधरा छात्रावास में ठहरने की व्यवस्था है जिसका निर्धारित शुल्क नियमानुसार परीक्षक के पारिश्रमिक से कटौती की जाने की व्यवस्था होगी।
21. परीक्षक मूल्यांकन कक्ष में किसी प्रकार का बैग/झोला इत्यादि लेकर कदापि न आएँ। मूल्यांकन कक्ष में मोबाइल का प्रयोग वर्जित है।
22. यदि किसी उत्तरपुस्तिका पर अनुक्रमांक/मोबाइलनम्बर/पहचान हेतु कोई चिन्ह, चित्र अथवा निशान बना होने पर परीक्षक द्वारा मूल्यांकन समन्वयक को तत्काल सूचित करना होगा।
23. शिक्षक द्वारा परीक्षक बनने हेतु प्रस्तुत प्रपत्रों में किसी भी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर परीक्षकत्व कार्य से वंचित कर दिया जायेगा तथा किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
24. मूल्यांकन के समय किसी प्रकार की शिकायत/सुझाव इत्यादि के लिए मूल्यांकन समन्वयक से सम्पर्क कर सकते हैं।


(डॉ० आशुतोष कुमार वर्मा)
मूल्यांकन समन्वयक
सम सेमेस्टर, सत्र 2025-26